



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28-मार्च 5, 2004 (फाल्गुन 9, 1925)
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28—MARCH 5, 2004 (PHALGUNA 9, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग 1—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अपरसें की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 2004

सं० ए-19014/1/2004-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, श्री प्रवीर कृष्ण, भा०प्र०से० (मध्य प्रदेश : 87) को 16 फरवरी, 2004 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, मंत्रिमंडल सचिवालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

सुनील मिश्र, उप सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बंगलूर-560 094, दिनांक 11 फरवरी 2004

सं० 12/6/1/2004-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग में डा० आर० जी० नड्डूर, भा०प्र०से० (कर्नाटक : 80) को संयुक्त सचिव (वित्त) के रूप में दिनांक फरवरी 11, 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 2004

सं० एफ-6(1894)/2004-प्रशा०-I—कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 जनवरी, 2004 के आदेश सं० 7/1/2004 ई०ओ० (एस० एम०-1) के तहत सूचित मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति की अनुमोदन के अनुपालन में श्रीमति सुमन स्वरूप, आई०ए०एस० (ए०जी०एम०यू० : 69) ने दिनांक 04-02-2004 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में अतिरिक्त सचिव के स्तर एवं वेतन में सलाहकार पद का पदभार संभाल लिया है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 5 फरवरी 2004

सं० एफ-6 1867/2002-प्रशा०-I—पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग में सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति के परिणामस्वरूप, श्रीमति रेवा नैयर, आई०ए०एस० (हरियाणा : 68) ने

दिनांक 03-02-2004 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में सलाहकार का पदभार त्याग दिया है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

सं० एफ-6 (1892)/2004-प्रशा०-I—सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 13-1-2004 के आदेश सं० 12015/2/जेएजी/2003-आई०एस०एस० के तहत योजना आयोग में उनकी तैनाती के परिणामस्वरूप, आई०एस०एस० के एन० एफ० एस० जी० अधिकारी श्री राजीव लोचन ने दिनांक 15-01-2004 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में 14300-400-18300 रु० के वेतनमान में निदेशक के पद का पदभार संभाल लिया है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

सं० एफ-6(1893)/2004-प्रशा०-I—सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 13-1-2004 के आदेश सं० 12015/2/जेएजी/2003-आई०एस०एस० के तहत योजना आयोग में उनकी तैनाती के परिणामस्वरूप, आई०एस०एस० के जे० ए० जी० अधिकारी श्रीमति रत्ना अंजन जेना ने दिनांक 29-01-2004 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में 12000-375-16500 रु० के वेतनमान में उप सलाहकार के पद का पदभार संभाल लिया है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 9 फरवरी 2004

सं० एफ-6 (1858)/2002-प्रशासन-I—राष्ट्रपति, श्री अविनाश कुमार खुल्लर को योजना आयोग में उप सलाहकार (वस्त्र) के पद पर दिनांक 20-06-2003 (पूर्वाह्न) से स्थाई आधार पर नियुक्त करते हैं।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

(राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग सचिवालय)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 फरवरी 2004

सं० ए-12023/11/2002-रा० ज० आ०—राष्ट्रपति जी, श्री अर० जी० विजयन (भारतीय सांख्यिकीय सेवा) की राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग में, रुपये 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति की अवधि, 30-10-2003 से 29-10-2005, तक दो वर्षों के लिए या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

राजकुमार परमार, अवर सचिव (रा० ज० आयोग)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 05 फरवरी 2004

सं० ए-32013/7/2003-प्रशा०-I (वि० वि०)—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय, विधि

एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड के श्री एस० एल० श्रीवास्तव, अधीक्षक (अनुवाद) को विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के कथित खण्ड में दिनांक 04 फरवरी, 2004 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक रु० 10,000-325-15,200 के वेतनमान में सहायक विधायी परामर्शी (हिन्दी शाखा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

किरण पुरी, उप सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 5 फरवरी 2004

सं० के०-13026/1/2003-यू०एस०-II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, (1) श्री नवीन सिन्हा और (2) श्रीमती मृदुला मिश्र को उसी वरीयता क्रम में, अपना-अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 6 फरवरी 2004

सं० के०-13019/4/2003-यू०एस०-II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, श्री कुलदीप चन्द को 8 फरवरी, 2004 से एक वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2004

सं० आई-14011/23/2003-आई०पी०एस०-1—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिबीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्तियाँ अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

चयन सूची-2001

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1	2	3
1.	भोला नाथ सिंह	16-01-1956
2.	ग्यान सिंह	01-07-1953

1	2	3
3.	विजय शंकर सिंह	22-12-1951
4.	राजेन्द्र प्रसाद सिंह-II	08-10-1953
5.	काशी नाथ सिंह	30-01-1952
6.	राज बहादुर सिंह	02-01-1952
7.	अखिलेश्वर राम मिश्रा	18-03-1954

चयन सूची-2002

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	प्रमोद कुमार मिश्रा	18-05-1958
2.	सिया राम सरन आदित्य	10-08-1952
3.	सूर्य नाथ सिंह	01-08-1955
4.	वीर बहादुर सिंह	07-03-1951

चयन सूची-2003

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	दीपक शर्मा	30-01-1955
2.	संजय श्रीवास्तव	15-09-1953
3.	राजेश कुमार श्रीवास्तव	01-07-1958
4.	दुर्गा चरन मिश्रा	01-09-1956
5.	सत्येन्द्र वीर सिंह	21-07-1955
6.	राम कृष्ण चतुर्वेदी	01-12-1957
7.	राहुल अस्थाना	19-03-1952
8.	जितेन्द्र सोनकर	20-12-1950

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

सं० आई-14011/23/2003-आई० पी० एस०-I-
भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में नीति उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 06-02-2004 को चयन समिति की दिनांक 11-12-2003 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2001, 2002 एवं 2003 की उन वार्षिक चयन सूचियों को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग में वर्ष 2001, 2002 एवं 2003 में नौ, चार एवं आठ मौलिक रिक्तियों को

भरे जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :—

चयन सूची-2001

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.*	लालजी शुक्ला	01-07-1955
2.	भोला नाथ सिंह	16-01-1956
3.	ग्यान सिंह	01-07-1953
4.	विजय शंकर सिंह	22-12-1951
5.	राजेन्द्र प्रसाद सिंह-II	08-10-1953
6.	काशी नाथ सिंह	30-01-1952
7.	राज बहादुर सिंह	02-01-1952
8.*	सुग्रीव गिरि	01-01-1955
9.	अखिलेश्वर राम मिश्रा	18-03-1954

* क्रम संख्या 1 एवं 8 पर दिये गये नामों को उनके विरुद्ध लंबित अपराधिक मामले के निपटान किये जाने के अध्यक्षीन सूची में अन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

चयन सूची-2002

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	प्रमोद कुमार मिश्रा	18-05-1958
2.	सिया राम सरन आदित्य	10-08-1952
3.	सूर्यनाथ सिंह	01-08-1955
4.	वीर बहादुर सिंह	07-03-1951

चयन सूची-2003

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	दीपक शर्मा	30-01-1955
2.	संजय श्रीवास्तव	15-09-1953
3.	राजेश कुमार श्रीवास्तव	01-07-1958
4.	दुर्गा चरन मिश्रा	01-09-1956
5.	सत्येन्द्र वीर सिंह	21-07-1955
6.	राम कृष्ण चतुर्वेदी	01-12-1957
7.	राहुल अस्थाना	19-03-1952
8.	जितेन्द्र सोनकर (अ० ज०)	20-12-1950

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

सं० I-18012/3/2004-आई० पी०एस०-I-राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जम्मू और कश्मीर संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके

नाम के सामने दर्शायी गई तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायीकरण की तारीख
	सर्व/श्री	
1.	योगिन्दर कौल	09-03-2002
2.	अब्दुल कयूम मन्हास	09-03-2002
3.	अवतार सिंह बाली	10-01-2003
4.	श्याम लाल शर्मा	10-01-2003
5.	अब्दुल अजीज खान	10-01-2003

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2004

सं० I-14020/3/2001-प्रशा० (सीडी)—राष्ट्रपति, मेजर कन्तन गुप्ता को राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर में स्थानापन्न आधार पर 23-01-2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक सहायक निदेशक (सामान्य) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के० सी० यादव, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 2004

सं० 20/जी/2358-प्रशा० 1—राष्ट्रपति, श्री एन० ए० विश्वनाथन, भा० प्र० से० (उ० प्र० 72) को, जो पहले संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (गृह) थे, पद को अस्थाई तौर पर उन्नयन करके गृह मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में दिनांक 30 जनवरी, 2004 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

सं० 20/जी/2513-प्रशा०-I—राष्ट्रपति श्रीमति रीता चटर्जी, सीएसएस को गृह मंत्रालय में निदेशक के रूप में दिनांक 09 फरवरी 2004 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जा भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

सं० 20/जी/2514-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, श्री वी० रविन्द्रन, आईओएफएस (85) को गृह मंत्रालय में निदेशक के रूप में दिनांक 12 फरवरी, 2004 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जा भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 2004

सं० 2/94/2003-डोनर—राष्ट्रपति, श्री अमित सहाय आई० एफ० एस० (ए० एम० : 87) को दिनांक 30-1-04 पूर्वाह्न से 16,400-20,000 रुपये के वेतनमान अर्थात् आई० एफ० एस० का ग्रेड जो कि वह पहले ले रहे थे में, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर निदेशक के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

प्रमोद कुमार, उप सचिव (प्रशा०)

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2004

सं० 2004 (फा० सं० ए 19013/2/2004-प्रशा०-1क)—व्यय विभाग के दिनांक 27-1-2004 के का० जा० सं० ए-32022/1/2004-सीएसएस के अनुसरण में श्री सी० गोपीनाथन को राष्ट्रपति दिनांक 13-1-2004 (पूर्वाह्न) से 30-6-2004 तक की अवधि के लिए अथवा 14 के लिए नियमित आधार पर भरे जाने तक जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के पद पर श्री सी० गोपीनाथन की तदर्थ पदोन्नति से उन्हें इस पद पर अतिरिक्त काल तक बने रहने का अथवा प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में किसी वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

आर० के० सहोदरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2004

भारतीय सीमा शुल्क एवं के० उ० शु० स्थापनाएं

सं० 01/2004/फा० सं० ए-38012/19/2003-प्रशा०-II—राष्ट्रपति, श्री जी० कान्निया, सहायक सीमा शुल्क आयुक्त, त्रिची की भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा समूह 'क' से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति को दिनांक 21 जनवरी, 2004 से स्वीकार करते हैं।

के० किपगेन, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 2004

सं० 2/10/1998-सिक्का-1—राष्ट्रपति, दिनांक 6 फरवरी, 2003 की इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में भारत सरकार टकसाल, नोएडा में काय शाला प्रबंधक, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव और भारत सरकार टकसाल, मुम्बई कार्यशाला प्रबंधक श्री सी० कल्याण राम की क्रमशः भारत सरकार टकसाल, नोएडा और मुम्बई में वरिष्ठ कार्यशाला प्रबंधक के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्ति को आगे दिनांक 30-6-04

की अवधि तक अथवा नियमित पदधारियों के चयन होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से अधिकारी को नियमित नियुक्ति या वरिष्ठता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अपराजिता चौधरी, अवर सचिव

सं० 2/10/1998-सिक्का-1—राष्ट्रपति, दिनांक 6 फरवरी, 2003 की इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में भारत सरकार टकसाल, नोएडा में कार्यशाला प्रबंधक, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव और भारत सरकार टकसाल, मुम्बई कार्यशाला प्रबंधक श्री सी० कल्याण राम की क्रमशः भारत सरकार टकसाल, नोएडा और मुम्बई में वरिष्ठ कार्यशाला प्रबंधक के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्ति की आगे दिनांक 30-6-2004 की अवधि तक अथवा नियमित पदधारियों के चयन होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से अधिकारी की नियमित नियुक्ति या वरिष्ठता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अपराजिता चौधरी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 2004

सं० ए-12011/15/01-प्रशा० 1/2002—इस विभाग की दिनांक 14 अगस्त, 2003 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति श्री तपन कुमार मन्ना, टेक्नोलॉजिस्ट, भारत सरकार प्रेस (पीएल इकाई) फरीदाबाद की इस विभाग के बजट मुद्रणालय में प्रबंधक (प्रेस) के पद पर 10,000-15,200 रु० के वेतनमान में तदर्थ नियुक्ति की 5-2-2004 से 29-2-2004 (अपराह्न) तक की अवधि के लिए बढ़ाते हैं।

ईश्वर चन्द कम्बोज, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 2004

सं० 4/25/2002-मुद्रा-II (बी एन पी)—राष्ट्रपति, श्री जालम सिंह तंवर, भंडार अधिकारी को 28-1-2004 (अपराह्न) से अगले आदेश तक पदोन्नति पर 10,000-15,200 रुपए (संशोधित) के वेतनमान पर बैंक नोट प्रेस, देवास में मुख्य क्रय एवं भण्डार अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए० के० खन्ना, अवर सचिव

सं० 4/1/2003-मुद्रा-II (बी एन पी)—राष्ट्रपति, श्री आर० के० घोषाल, तकनीकी अधिकारी, की 28-1-2004 (अपराह्न) से अगले आदेश तक पदोन्नति पर 8000-13500 रुपए (संशोधित) के वेतनमान पर बैंक नोट प्रेस, देवास में सहायक कारखाना प्रबंधक (मुद्रण तथा प्लेट मेकिंग) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए० के० खन्ना, अवर सचिव

दिनांक 10 फरवरी 2004

सं० 3/35/2003-मुद्रा-III—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री टी० एन० दुबे, नियंत्रण अधिकारी, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड, ने 31 जनवरी 2004 (अपराह्न) को नियंत्रण अधिकारी का पदभार छोड़ दिया है। उनका नाम उसी तारीख से भारत प्रतिभूति मुद्रणालय की सूची से हटा दिया गया है।

ए० के० खन्ना, अवर सचिव

बैकिंग प्रभाग

मुद्रिपत्र

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2004

सं० 13/3/2002-डीआरटी—श्री ए० सी० प्रकाश, पीठासीन अधिकारी, डीआरटी, कोयम्बतूर की विधि कार्य विभाग में वापसी से संबंधित 27 फरवरी 2004 की समसंख्यक अधिसूचना को 27 जनवरी 2004 के रूप में पढ़ा जाए।

एम० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

दिनांक 12 फरवरी 2004

सं० 18/2/2001-डीआरटी—राष्ट्रपति, ऋण वसूली अधिकरण-II, चेन्नई कार्यालय में 10,000-15,200 रुपए के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त वसूली अधिकारी, श्री विजयराघवन की प्रतिनियुक्ति अवधि को 15-3-2004 से 14-03-2005 तक अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

एम० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

दिनांक 27 फरवरी 2004

सं० 13 (3)/2002-डीआरटी—ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बतूर में पीठासीन अधिकारी श्री ए० सी० प्रकाश के व्यक्तिगत आधार पर उनके मूल कार्यालय, विधि कार्य विभाग में समयपूर्व प्रत्यावर्तन के अनुरोध पर श्री ए० सी० प्रकाश की सेवाएं 29-2-2004 (अपराह्न) से विधि कार्य विभाग को वापस सौंपी जाती हैं।

एम० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

बाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 2004

सं० ए-12023/04/2003-व्य०-I—राष्ट्रपति, भारतीय सांख्यिकी सेवा की अधिकारी, सुश्री सुभ्रा सारकर को 01 जनवरी, 2004 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक बाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में सहायक निदेशक नियुक्त करते हैं।

ज० ज० कौर, अवर सचिव

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 2004

सं० 1/2004 (सं० 6/2270/2002-मा०सं०वि०-1/489)—
राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री वी० के०
गुप्ता, जो वैयक्तिक पदोन्नति के आधार पर अवर सचिव के
पद पर कार्य कर रहे हैं को, पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय
सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 में नियुक्त करते हैं तथा उन्हें विदेश
व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग
मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 में उप महानिदेशक
विदेश व्यापार (अपर सचिव के स्तर पर) के नियमित रिक्त
पद पर, दिनांक 4-1-2002 (पूर्वाह्न) से तैनात करते हैं।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 में यह नियुक्ति, केन्द्रीय
सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 की चयन सूची तैयार किए जाने तक
अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार
पर की गई है। केन्द्रीय सेवा सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 में उप
महानिदेशक विदेश व्यापार, श्री वी० के० गुप्ता, इस तदर्थ
नियुक्ति के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 की
चयन सूची में अपना नाम शामिल करवाने का दावा करने के
हकदार नहीं होंगे। जब अधिकारी का नाम केन्द्रीय सचिवालय
सेवा के ग्रेड-1 की चयन सूची में शामिल किया जाता है तो इस
तदर्थ पदोन्नति के आधार पर वरीयता का दावा नहीं किया
जाएगा।

तरसेम लाल, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

(आर्थिक सलाहकार का कार्यालय)

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 2004

सं० ए-32015/1/2004 आ०सं० (प्रशा०-I)—राष्ट्रपति,
आर्थिक सलाहकार का कार्यालय के निम्नलिखित कनिष्ठ
अन्वेषकों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि अथवा अगले
आदेश होने इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए इस कार्यालय
में तदर्थ आधार पर वरिष्ठ आर्थिक अन्वेषक नियुक्त करते हैं:-

क्र०सं०	नाम	तदर्थ पदोन्नति का पद	पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ आधार पर कार्य करते रहने की अवधि
1.	श्रीमती रमा मेहरोत्रा	वरिष्ठ आर्थिक अन्वेषक	5-2-2004 से 30-4-2004
2.	श्री लक्ष्मण सिंह	-वही-	-वही-

यह सभी पदोन्नतियाँ पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ आधार पर
की गई हैं, जिसके लिए उक्त कर्मचारियों में से किसी भी कर्म-
चारी को इन पदों पर बने रहने या इन ग्रेडों में वरीयता मांगने
का या स्थाई होने का कोई अधिकार नहीं होगा। सरकार

संबन्धित अधिकारी की उक्त तदर्थ नियुक्ति को कोई कारण
बताये अथवा सूचना आदि दिये बिना ही समाप्त कर सकती है।

जी० एस० नेगी, अपर आर्थिक सलाहकार

कोयला एवं खान मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 2004

सं० 12012/1/2004-प्रशा०—राष्ट्रपति जी, श्री रतन
कुमार मुखर्जी, सुपुत्र स्वर्गीय श्री ए० के० मुखर्जी, निवासी
I-1651 (दूसरा तल), चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली, को दिनांक
9 जनवरी, 2004 (पूर्वाह्न) से 10,000-325-15,200 के
वेतनमान में कोयला एवं खान मंत्री (कुमारी ममता बक्षर्जी) के
अतिरिक्त निजी सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं। उनकी
नियुक्ति का कार्यकाल मंत्री जी के कार्यकाल के साथ समाप्त
अवधि तक अथवा जब तक मंत्री जी को उनकी सेवाओं की
आवश्यकता हो, इसमें जो भी पहले हो।

पार्वती कौटिया, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 2004

सं० 5 (3)/2000-स्थापना (.)—यह एतद्वारा अधि-
सूचित किया जाता है कि सी० आई० एस० आर० के० नियंत्रणा-
धीन क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर के कार्यालय में
उप भंडार एवं क्रय अधिकारी श्री श्रीदेवा नन्दा, जो इस समय
इस्पात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के सहायक निजी सचिव के
पद पर नियुक्त हैं, का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर
श्री श्रीदेव नन्दा हो गया है।

बाबू राम, अवर सचिव

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 फरवरी 2004

सं० ए-12023/3/2001-प्रशासन—राष्ट्रपति, भारत बेगन
एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड में सहायक प्रबंधक
(सामग्री) श्री संजय कुमार को भारी उद्योग और लोक
उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग में दिनांक 11 फरवरी,
2004 (पूर्वाह्न) से अधिकतम 3 (तीन) वर्ष की अवधि तक
अथवा अगला आदेश जारी होने तक अल्प अवधि संविदा पर
उप निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी० एस० बोध्याल, निदेशक

उपभोक्ता मामलें, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)

वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी, 2004

सं० ए-20011/1/2003-स्था-I—राष्ट्रपति, वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय में सहायक निदेशक, श्रीमती रजनी अग्रवाल को उसी संगठन में 8-1-2004 से आगामी 6 महीने की अवधि के लिए अथवा नियमित प्रत्याशी की नियुक्ति होने तक या अगले आदेशों तक जो भी इनमें से पहले हो रु० 10000-325-15200 के वेतनमान में उप निदेशक के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्ति को आगे बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

एम०एल० मल्होत्रा, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 5 फरवरी 2004

सं० एस०एम०/01/030/2001—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके नाम के सामने दी गई तिथि से एवं अगले आदेशों तक रुपये 8,000-275-13,500 के वेतनमान में समूह 'क' सेवा में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उप अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

- 1 श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह 28-11-2003
- 2 श्री धीरज शाह 22-12-2003 अपराह्न

बी०के० रायचन्दानी, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 जनवरी 2004

सं० ए-12012/8/2002 पी-II (.)—राष्ट्रपति, श्री बी० के० सिंह, आई एफ एस (जम्मू और कश्मीर : 89) उप सचिव, को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में निदेशक के पद पर 14300-400-18300/- रु० के वेतनमान में दिनांक 14 जनवरी, 2004 पूर्वाह्न से 4-12-2007 (अपराह्न) तक अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, हर्ष नियुक्त करते हैं, इस पद पर नियुक्ति केवल उनके लिए है।

जफरूल इस्लाम, अवर सचिव

दिनांक 29 जनवरी, 2004

सं० ए-12012/8/97-पी-II—सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सहमति से, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सहायक श्री एस० मूलवानी, की प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि को एतद्वारा दिनांक 21-12-2003 से 20-12-2004 अथवा

उनके स्थान पर उत्तरवर्ती अधिकारी की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

जफरूल इस्लाम, अवर सचिव

दिनांक 30 जनवरी 2004

सं० ए-32012/1/97-पी०-I (.)—सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 7500-12000/- रुपये के वेतनमान में ग्रेड-I के तकनीकी अधिकारी (वानिकी) श्री शिवचरण सिंह को एतद्वारा 29-01-2004 (पूर्वाह्न) से 10,000-15,200/- रुपये के वेतनमान में सहायक आयुक्त (वानिकी) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

जफरूल इस्लाम, अवर सचिव

दिनांक 4 फरवरी 2004

सं० ए० 11013/3/2003-पी०-II (.)—श्री आर०एल० थवेट, नेक्वरार, गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंड्री स्कूल, जशपुर नगर, छत्तीसगढ़ को एतद्वारा 1 फरवरी, 2003 (पूर्वाह्न) से 10,000-15,200 रुपये के वेतनमान में पूर्व पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री के अपर निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

श्री आर० एल० थवेट की नियुक्ति पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री के इच्छापर्यन्त उनके सेवाकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

श्री आर० एल० थवेट 1 फरवरी, 2003 (पूर्वाह्न) से इस वेतनमान में न्यूनतम वेतन अर्थात् 10,000 रुपये पाएंगे।

जफरूल इस्लाम, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2004

सं० ए-35014/8/2002-सी एच एस-V—राष्ट्रपति, हरियाणा सरकार के अधिकारी डा० विजय कुमार आनन्द को 8-1-2004 के पूर्वाह्न से तीन वर्षों की अवधि के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में 10,000-15200/- रु० के वेतनमान में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० विजय कुमार आनन्द को उसी तिथि से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में तैनात किया जाता है।

वाई० के० तलवार, उप-सचिव

दिनांक 9 फरवरी 2004

सं० ए० 35014/18/2003-सी०एच०एस-V—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर तमिलनाडु सरकार

की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डा० (श्रीमती) कलारानी मनोहरण को 29-9-2003 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग में 10,000-15,200 रु० के वेतनमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

वाई० के० तलवार, उप सचिव

दिनांक 10 फरवरी 2004

सं० ए० 35014/22/2003-सी०एच०एस०-V—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० (श्रीमती) मधुपा सूद को 24-10-2003 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग में 12000-16,500/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

वाई० के० तलवार, उप सचिव

नई दिल्ली-11, दिनांक 3 फरवरी 2004

सं० ए० 38012/3/2003-स्था०-I—अधिवर्षिता-वय प्राप्त कर लेने पर, श्री पी० एन० सिंह, उप-सचिव (स्वस्थाने), स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 31 जनवरी, 2004 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

डा० अनिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 11 फरवरी, 2004

सं० ए० 32013/6/2003-स्था०-I—राष्ट्रपति डॉ० ए० के० तिवारी, आई० आई० एस० (92) को 5 फरवरी, 2004 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

डा० अनिल कुमार, अवर सचिव

सं० ए-32013/7/2003-स्था०-I—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30-1-2004 के आदेश सं० 7/1/2004-ई०ओ० (एस०एम-I) के अनुसरण में, श्री अनुराग गोयल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (यू०पी० : 72) ने 3 फरवरी 2004 के अपराह्न से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्तीय सहायकार के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

डा० अनिल कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 10 फरवरी 2004

सं० ए० 12025/54/94—सीएचएस I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० बीरेन्द्र कुमार सिंह को 21 सितम्बर, 1994 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-4000 रुपए (संसोधन पूर्व) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० बीरेन्द्र सिंह को उसी तिथि से श्रम कल्याण संगठन, कर्मा के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 11 फरवरी 2004

सं० ए०-12025/25/2001-सी०एच०एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० शालिनी मल्होत्रा को 13 सितम्बर, 2002 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13500/-रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० शालिनी मल्होत्रा को उसी तारीख से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 13 फरवरी 2004

सं० ए० 12025/209/94-सी० एच० एस० I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा० (श्रीमती) जलजा राज को 21 सितम्बर, 1994 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-75-2800-द०रो०-100-4000/-रुपये (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० (श्रीमती) जलजा राज को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए-12025/65/98-सी०एच०एस०-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० सरिता शाम सुन्दर को 26-6-2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० सरिता शाम सुन्दर को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए-12025/33/01-सी०एच०एस०-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० देवेश भाटिया को 04-06-2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13500 रुपये के वेतनमान में परिबीक्षा पर नियुक्त करते हैं। डा० देवेश भाटिया को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहाकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2004

सं० 32011/3/2003-स्था०-5—राष्ट्रपति, कृषि एवं सहाकारिता विभाग की नियमित वरिष्ठ तकनीकी सहायक श्रीमती वसन्ती पाल और श्रीमती सीमा सेठी दोनों की उसी विभाग में 8000-275-13,500 रु० के वेतनमान में सहायक निदेशकों (सहाकारिता) के पद पर तदर्थ नियुक्ति को 29-1-04 से छः महीने की आगे की अवधि के लिए, या आगामी आदेशों तक, दोनों में से जो भी पहले हो बढ़ाते हैं।

2. श्रीमती वसन्ती पाल और श्रीमती सीमा सेठी की यह प्रोन्नति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और सहायक निदेशक के ग्रेड में वरिष्ठता सूची पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 नवम्बर 2003

सं० ए-18011(15)/2003-स्था०—श्रीमती राधा एस. चौहान, भा०प्र०से० (उत्तर प्रदेश : 88) के अपने मूल संवर् में समयपूर्व प्रत्यावर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के फलस्वरूप वे दिनांक 14 नवम्बर, 2003 को अपराह्न से कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में निदेशक का पदभार छोड़ देंगी। तथापि इस शर्त के अधीन कि दिनांक 25-08-2010 अर्थात् दिनांक 25-08-2007 को अनुमोदित केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि को समाप्ति और वर्ष 2010 को समाप्त तीन वर्ष की कूलिंग अवधि के बाद ही केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए उनके मामले पर विचार किया जाएगा।

श्रीमती राधा एस० चौहान, भा०प्र०से० (उत्तर प्रदेश : 88) की सेवाएं दिनांक 14 नवम्बर, 2003 के अपराह्न से उनके मूल संवर् अर्थात् उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी जाती हैं।

एच० आर० जोशी, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 2004

सं० ए-32011/3/2003-स्था०-1 (भाग)—राष्ट्रपति, श्री पूरन सिंह, के.स.से. को 29 जनवरी 2004 के अपराह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) में निदेशक नियुक्त करते हैं।

बी० एम० सद्दी, अवर सचिव

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2004

सं० 3-8/2003-प्रशासन-I—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20-1-2004 के आदेश संख्या 4/41/2003-ई० ओ० (एम० एम०-I) के अनुपालनार्थ श्री डी० झिगरन, आई० ए० एस० (एम० एम० : 86) को 3-2-2004 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 2-2-2009 तक अथवा आगामी आदेश होने तक, जो भी पहले हो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग में 15100-400-18300/- रुपए के वेतनमान में तत्काल प्रभाव से निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

सी० ए० जैकब, डेस्क अधिकारी

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 09 फरवरी 2004

सं० ई(जी पी) 2000/1/57—राष्ट्रपति जी, मध्य रेल के लेखा विभाग के ग्रुप 'बी' अधिकारी श्री आर पी त्रिपाठी का उसी रेलवे में 05-03-2002 से भारतीय रेल लेखा सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में मूल रूप से नियुक्त किए जाने का अनुमोदन करते हैं। लेकिन श्री आर पी त्रिपाठी कनिष्ठ वेतनमान में 01-01-2003 से ही आर्थिक लाभ के पात्र होंगे।

2. जहाँ तक श्री आर० पी० त्रिपाठी का संबंध है वह अधिसूचना 30-04-2003 की अधिसूचना सं० ई(जीपी) 2000/1/57 का अधिकार्य करती है।

बी० एन० माधुर, सचिव/रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 2004

सं० 92/स्था० (राज० म०) 1/5/1—राष्ट्रपति जी, भारतीय रेल यांत्रिक सेवा के निम्नलिखित प्रोबेशनरों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्र०सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	(सर्व श्री/श्रीमती/कु०)	
1.	हिम्मी गर्ग	26-02-92
2.	विवेक सहाय माथुर	28-03-92
3.	संदीप अनेजा	25-03-92
4.	नीरज कुमार	26-02-92
5.	शरद सक्सेना	26-02-92
6.	स्वपनिल गर्ग	26-02-92
7.	परमानन्द शर्मा	26-02-92
8.	मनीष जैन	26-02-92
9.	शिरीश चन्द्रा श्रीवास्तव	26-02-92
10.	मधुकर दयाल	26-02-92
11.	सुब्रता सरकार	26-02-92
12.	अतुल प्रियदर्शी	03-06-92
13.	रमन कृष्णन	25-03-92
14.	विनीत सिंह	26-02-92
15.	महेश कुमार	26-02-92
16.	महेश कुमार	26-02-92
17.	संजीव देशपाण्डे	28-03-92
18.	विधेक शील	03-06-92
19.	मोहम्मद फैजल जुबैरी	18-08-92
20.	एम० एम० पंडित	05-04-93
21.	विकाश आर्या	10-10-93
22.	ऋषि केश प्रसाद	08-04-94
23.	विवेन्द्रा सिकु	08-04-94
24.	मुकेश यादव	20-09-92

मनीष कुमार, संयुक्त निदेशक, स्था० (जीआर)
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2004

सं० 90/स्था० (राज० म०) 1/5/1—राष्ट्रपति जी, भारतीय रेल यांत्रिक सेवा के प्रोबेशनर श्री रविन्द्र करकेटा को 08-04-1994 से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

मनीष कुमार, संयुक्त निदेशक, स्था० (जीआर)
(रेलवे बोर्ड)

सं० 93/स्था० (राज० म०) 1/5/2—राष्ट्रपति जी, भारतीय रेल यांत्रिक सेवा के निम्नलिखित प्रोबेशनरों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्र०सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	(सर्व श्री/श्री/कु०)	
1.	रजत भागव	14-06-93
2.	राजगोपाल शर्मा	05-03-93
3.	सविन्दर मोहन शर्मा	05-03-93
4.	रोहित कपूर	05-03-93
5.	डी साईबाबा	14-06-93
6.	के माधव	14-06-93
7.	दीपक निगम	05-03-93
8.	के नारायण	05-03-93
9.	योगेश मोहन	05-03-93
10.	राजेश कुमार मिश्रा	05-03-93
11.	सौरभ प्रसाद	05-03-93
12.	नितिन कुलश्रेष्ठ	14-06-93
13.	अजय सिंह	05-03-93
14.	आदर्श खरे	05-03-93
15.	मुकुन्द कुमार सिन्हा	05-03-93
16.	प्रशान्त सोनी	05-03-93
17.	बी अनिल श्रीनिवास	05-04-93
18.	राहुल रतन	05-03-93
19.	सोहनजीत सिंह कोच्छर	05-04-93
20.	अतुल सिंह	05-04-93
21.	गौरव कुमार	05-03-93
22.	अरविंद कुमार नोटियाल	10-10-93
23.	हैप्पी	05-03-93
24.	गालिब अहमद जीलानी	05-03-93
25.	विनय श्रीवास्तव	10-10-93
26.	रामकरण मोतीराम पासी	05-03-93
27.	घमैन्द्र कुमार	10-10-93
28.	ऋषि लाल	08-04-94
29.	चिनोद पाल	13-04-95

मनीष कुमार, संयुक्त निदेशक
स्था० (जीआर) (रेलवे बोर्ड)

सं० 94/स्था० (राज० म०) I/5/1—राष्ट्रपति जी भारतीय रेल यांत्रिक सेवा के निम्नलिखित प्रोबेशनरों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	सर्वश्री/श्री/कु०	
1.	अमित खन्ना	13-3-1994
2.	मधुप कुमार तिवारी	13-3-1994
3.	अंकुर अग्रवाल	13-3-1994
4.	दिनकर सिन्धु	13-3-1994
5.	विजय कुमार खेरा	13-3-1994
6.	विशाल मिश्रा	13-3-1994
7.	मनीष अग्रवाल	13-3-1994
8.	आर० प्रदीप	13-3-1994
9.	बिंदु मिश्रा	13-3-1994
10.	मयंक तिवारी	13-3-1994
11.	मधुकर कुमार भगत	13-3-1994
12.	अभिषेक मिश्रा	19-4-1994
13.	मनीष थपलयाल	16-4-1994
14.	विपुल सिंह	13-3-1994
15.	देवाशीष त्रिपाठी	13-3-1994
16.	सुमित नरूला	13-3-1994
17.	राहुल त्यागी	13-3-1994
18.	रघुवीर प्रसाद मीणा	13-3-1994
19.	अनिल प्रिया गौतम	13-3-1994
20.	अमलान टिकी	8-4-1994
21.	प्रकाश चौधरी	8-4-1994

मनीष कुमार, संयुक्त निदेशक,
स्था० (जी आर)
(रेलवे बोर्ड)

सं० 99/ई(जी० आर०) 1/32/1—राष्ट्रपति जी भारतीय रेल कार्मिक सेवा के निम्नलिखित प्रोबेशनरों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	सर्वश्री/श्री/कु०	
1.	दर्शनिता अहलुवालिया	20-09-1999
2.	सायारिका पटनायक	20-09-1999

1	2	3
3.	मनीष चन्द्रा	20-09-1999
4.	गरिमा श्रीवास्तव	20-09-1999
5.	अनुराधा सिंह	20-09-1999
6.	मोनिका सिंह	20-09-1999
7.	टीना दुआ	20-09-1999
8.	हर्षा दास	20-09-1999
9.	मुदित चन्द्रा	20-09-1999
10.	स्नेहल भावासिंह पाटील	10-01-2000
11.	अवधेश कुमार	20-09-1999
12.	ए० नारायणन्	20-09-1999
13.	शकुन्त देहरा	10-01-2000

मनीष कुमार, संयुक्त निदेशक
स्था० (जी आर)
(रेलवे बोर्ड)

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 फरवरी, 2004

फा०सं० 25/9/2003-आर एंड आर—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 76 की उपधारा (6) की शर्तों के अनुसार श्री भानुभूषण की केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के सदस्य के रूप में 4 फरवरी, 2004 पूर्वाह्न से 5 वर्षों की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुरोध एतद्वारा प्रदान किया जाता है। श्री भानुभूषण 26000/- रुपये (स्थिर) प्रतिमाह वेतन के लिए अधिकृत होंगे।

2. सीईआरसी के सदस्य के रूप में श्री भानुभूषण की नियुक्ति इस मंत्रालय के दिनांक 30 जनवरी, 2004 को जारी के पत्र सं० 25/9/2003-आर एंड आर शर्तों व निबंधन से शासित होगी।

आलोक कुमार, निदेशक

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 06 फरवरी, 2004

सं०-3/2004 फाईल सं०-2/1/2003-प्रशा० 1—राष्ट्रपति श्री एम० एम० आहुजा, प्रधान निजी सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को दिनांक 14-01-2004 के पूर्वाह्न से 10,000—15,200 रुपये के वेतनमान में नदियों को परस्पर जोड़े जाने संबंधी कार्यबल के माननीय अध्यक्ष (श्री सुरेश पी० प्रभु) के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। उपर्युक्त नियुक्ति सह-समाप्य आधार पर जब तक अध्यक्ष चाहेंगे, या अपने आदेशों, जो भी पहले हो, तक होगी।

नरेश कुमार गुप्ता, अवर सचिव

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 2004

सं० पी एफ/1290/आई आई एस—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' की वरिष्ठ प्रशासनिक मंवरग अधिकारी श्रीमती ललिता जकारिया 31 अगस्त, 2003 अपराह्न को सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गई हैं।

2. श्रीमती जकारिया ने इसी तारीख से निदेशक, मवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग नई दिल्ली के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

अशोक कुमार, अवर सचिव

दिनांक 4 फरवरी 2004

पी एफ/712/आई आई एस—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर भारतीय सूचना समूह 'क' की चयन श्रेणी अधिकारी श्रीमती सुरिन्द्र कौर 30 नवम्बर, 2003 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गई हैं।

2. श्रीमती सुरिन्द्र कौर ने इसी तारीख से महानिदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

अशोक कुमार, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 जनवरी 2004

सं० 11/2004 (4/1/2004-प्रशा०-II)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय में संयुक्त निदेशक (प्रशा०) के पद पर कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय

सेवा के श्रेणी-I अधिकारी श्री मोहिन्दर पाल दिनांक 31-12-2003 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

विनय कुमार सेखड़ी, अवर सचिव

श्रम मंत्रालय

(रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली-11000 1, दिनांक 27 जनवरी 2004

सं० जी०जी०ई०टी०ए०-32013/4/99-प्रशा०-II—राष्ट्रपति, निम्नलिखित, अधिकारियों को रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय में संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर 12,000-375-16,500/-रु० के वेतनमान में संयुक्त निदेशक रोजगार (समूह "क" राजपत्रित) की श्रेणी में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से रोजगार निदेशालय में नियुक्त करते हैं :—

क्रमांक अधिकारी का नाम व पदनाम कार्यभार ग्रहण करने की तारीख

1. श्री एस० के० सेठ—डी० डी० 31. 12. 2003
एक्स०
2. श्री रूमाल सिंह—एस० एस० 31. 12. 2003
ओ० ग्रेड-1
3. श्री योगेश रायजादा—डी० 13. 01. 2004
डी० एक्स०

आर० के० अहलवालिया, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 16th February 2004

No. A-19014/1/2004-Adi.—The President is pleased to appoint Shri Pravir Krishn, IAS (MP-87) as Director in the Cabinet Secretariat with effect from the forenoon of 16th February, 2004 for a period of five years or until further orders, whichever event occurs earlier.

SUNIL MISHRA, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 094, the 11th February 2004

No. 12/6/1/2004-1.—The President is pleased to appoint Dr. R.G. Nadadur, IAS (KN:80), as Joint Secretary (Finance) in the Department of Space with effect from the forenoon of February 11, 2004 and until further orders.

K.S. RAMACHANDRA, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 4th February 2004

No. F.6(1894)/2004-Adm.I.—In pursuance of ACC's approval conveyed by the Department of Personnel & Training vide their Order No. 7/1/2004-EO (SM.I) dated 30th January, 2004, Smt. Sunan Swarup, IAS (AGMU:69) has assumed charge as Adviser in the Planning Commission in the rank and pay of Additional Secretary to the Government of India w.e.f. 4.2.2004 (F.N.)

K.K. CHHABRA, Under Secy.

The 5th February 2004

No. F.6(1867)/2002-Adm.I.—Consequent on her appointment as Secretary, Department of Development of North Eastern Region, Smt. Reva Nayyar, IAS (HY:68) has relinquished charge of the post of Adviser, Planning Commission w.e.f. 3.2.2004 (FN).

K.K. CHHABRA, Under Secy.

No. F.6(1892)/2004-Adm.I.—Consequent on his posting in the Planning Commission vide Ministry of Statistics & Programme Implementation's Order No. 12015/2/JAG/2003-ISS dated 13.1.2004, Shri Rajeev Lochan, an NFSG officer of ISS has assumed charge as Director in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 w.e.f. 15.01.2004 (FN).

K.K. CHHABRA, Under Secy.

No. F.6.(1893)/2004/Adm.I.—Consequent on her posting in the Planning Commission vide Ministry of Statistics &

Programme Implementation's Order No. 12015/2/JAG/2003-ISS dated 13.1.2004, Smt. Ratna Anjan Jena, JAG officer of ISS has assumed charge as Deputy Adviser in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 w.e.f. 29.01.2004 (FN).

K.K. CHHABRA, Under Secy.

The 9th February 2004

No. F.6(1858)/2002-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri Avinash Kumar Khullar to the post of Deputy Adviser (Textiles) in the Planning Commission in a substantive capacity w.e.f. 20.06.2003 (FN).

K.K. CHHABRA, Under Secy.

(NCP SECRETARIAT)

New Delhi, the 6th February 2004

No. A-12023/10/2002-NCP.—The President is pleased to extend the deputation term of Shri R.G. Vijayan (ISS) as Senior Research Officer in the National Commission on Population in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 for a period of two years w.e.f. 30.10.2003 (FN) to 29.10.2005 (AN) or until further orders whichever is earlier.

R.K. PARMAR, Under Secy. (NCP)

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 5th February 2004

No. A. 32013/7/2003-Adm.I (L.D.).—On recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri S.L. Srivastava, Superintendent (Translation) in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to officiate as Assistant Legislative Counsel (Hindi Branch) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200 in the said wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 4th February, 2004 and until further orders.

KIRAN PURI, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 5th February 2004

No. K. 13026/1/2003-US-II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Navin Sinha and (ii) Smt. Mridula Mishra to be Judges of the Patna High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective office.

Dr. P.K. SETH, Jt. Secy.

The 6th February 2004

No. K. 13019/4/2003-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Kuldip Chand, to be an Additional Judge of the Himachal Pradesh High Court for a period of one year with effect from February 8, 2004.

Dr. P.K. SETH, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 11th February 2004

No. I-14011/23/2003-IPS.I.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations 1955, the President is pleased to appoint the following members of Uttar Pradesh Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of Uttar Pradesh under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) rules, 1954. The appointments will take effect from the date of issue of this notification :—

SELECT LIST-2001

Sl. No.	Name	Date of Birth
(S/Shri)		
1.	Bhola Nath Singh	16.01.1956
2.	Gyan Singh	01.07.1953
3.	Vijay Shanker Singh	22.12.1951
4.	Rajendra Prasad Singh-II	08.10.1953
5.	Kashi Nath Singh	30.01.1952
6.	Raj Bahadur Singhd	02.01.1952
7.	Akhileshwar Ram Mishra	18.03.1954

SELECT LIST-2002

Sl. No.	Name	Date of Birth
(S/Shri)		
1.	Pramod Kumar Misra	18.05.1958
2.	Sia Ram Saran Aditya	10.08.1952
3.	Surya Nath Singh	01.08.1955
4.	Vir Bhahadur Singh	07.03.1951

SELECT LIST-2003

Sl. No.	Name	Date of Birth
1	2	3
(S/Shri)		
1.	Deepak Sharma	30.01.1955
2.	Sanjaya Srivastava	15.09.1953

1	2	3
3.	Rajesh Kumar Srivastava	01.07.1958
4.	Durga Charan Misra	01.09.1956
5.	Sateyndra Vir Singh	21.07.1955
6.	Ram Krishna Chaturvedi	01.12.1957
7.	Rahul Asthana	19.03.1952
8.	Jitendra Sonkar	20.12.1950

S. P. VERMA, Under Secy.

No. I-14011/23/2003-IPS.I.—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (03) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 06.02.2004, approved the year-wise Select Lists of 2001, 2002 and 2003, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 11.12.2003, containing the names of the following State Police Service Officers of Uttar Pradesh, towards filling up nine, four and eight substantive vacancies in the IPS Uttar Pradesh Cadre during 2003.

SELECT LIST-2001

Sl. No.	Name	Date of Birth
(S/Shri)		
*1.	Lalji Shukla	01.07.1955
2.	Bhola Nath Singh	16.01.1956
3.	Gyan Singh	01.07.1953
4.	Vijay Shanker Singh	22.12.1951
5.	Rajendra Prasad Singh-II	08.10.1953
6.	Kashi Nath Singh	30.01.1952
7.	Raj Bahadur Singh	02.01.1952
*8.	Sugriv Giri	01.01.1955
9.	Akhileshwar Ram Mishra	18.03.1954

*The names at Sl. No. 1 and 8 are included in the Select List Provisionally subject to clearance of disciplinary proceedings pending against them.

SELECT LIST-2002

Sl. No.	Name	Date of Birth
(S/Shri)		
1.	Pramod Kumar Misra	18.05.1958
2.	Sia Ram Saran Aditya	10.08.1952
3.	Surya Nath Singh	01.08.1955
4.	Vir Bhahadur Singh	07.03.1951

SELECT LIST-2003

Sl. No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Deepak Sharma	30.01.1955
2.	Sanjaya Srivastava	15.09.1953
3.	Rajesh Kumar Srivastava	01.07.1958
4.	Durga Charan Misra	01.09.1956
5.	Sateyendra Vir Singh	21.07.1955
6.	Ram Krishna Chaturvedi	01.12.1957
7.	Rahul Asthana	19.03.1952
8.	Jitendra Sonkar (SC)	20.12.1950

S. P. VERMA, Under Secy.

No. 1-18012/3/2004-IPS-I.—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Police Service, the following members of the Indian Police Service, allocated to the Cadre of Jammu & Kashmir with effect from the dates indicated against each :-

Sl. No.	Name of the officer	Date of confirmation in the IPS
	(S/Shri)	
1.	Yoginder Kaul	09.03.2002
2.	Abdul Qayoom Manhas	09.03.2002
3.	Avtar Singh Bali	10.01.2003
4.	Sham Lal Sharma	10.01.2003
5.	Abdul Aziz Khan	10.01.2003

S.P. VERMA, Under Secy.

New Delhi, the 12th February 2004

No. 1-14020/3/2001-Ad(CD).—The President is pleased to appoint Major Kannan Krishnan as Assistant Director (General) in National Civil Defence College, Nagpur on officiating basis with effect from 23-1-2004 (FN) until further orders.

K.C. YADAV, Under Secy.

New Delhi, the 16th February 2004

No. 20/G/2358-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri N.A. Viswanathan IAS (UP : 72) formerly Joint Secretary & FA(H) as Additional Secretary and Financial Adviser in the Ministry of Home Affairs with effect from

the forenoon of 30th January, 2004, by upgrading the post temporarily.

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

No. 20/G.2513-Ad.I.—The President is pleased to appoint Smt. Rita Chatterjee, CSS, as Director in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 9th February, 2004 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

No. 20/G/2514-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri V. Ravindran, IOFS(85) as Director in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 12th February, 2004 for a period of five years or until further orders whichever is earlier.

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi, the 09th February 2004

No. 2/94/2003-DONER.—The President is pleased to appoint Sh. Amit Sahai, IFS (AM : 87) as Director, Department of Development of North Eastern Region w.e.f. the forenoon of the 30.01.2004 on central deputation in the pay scale of Rs. 16,400-20,000 i.e. the scale of pay being drawn by him in the grade of IFS.

PRAMOD KUMAR, Dy. Secy. (Admn.)

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 5th February 2004

No. of 2004, (F. No. A-19013/2/2004-Ad.IA).—In pursuance of the Department of Expenditure's O.M. No. A-32022/1/2004-CAS, dated 27.1.2004, the President is pleased to appoint Shri C. Gopinathan as P.P.S. on ad-hoc basis w.e.f. 13.1.2004 (F.N.) for the period up to 30.6.2004 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. Ad-hoc promotion of Shri C. Gopinathan to the post of Principal Private Secretary shall not confer on him any right to continue in the post indefinitely or to claim any seniority in the grade of PPS.

R. K. MALHOTRA, Under Secy.

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE
ESTABLISHMENTS

New Delhi, the 8th January 2004

No. 01 Of 2004 F. No. A-38012/19/2003-AD. II.—The President is pleased to accept the Voluntary Retirement of

Shri G. Kannian, Asst. Commissioner of Customs, Trichy from the Indian Customs and Central Excise Service, Group "A" with effect from 21.1.2004.

K. KIPGEN, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 30th January 2004

No. 2/10/1998-COIN. I.—In continuation of this Deptt.'s Notification of even number dated 6th Feb 2003, the President is pleased to extend the appointment of Shri Ajai Kumar Srivastav, Works Manager, India Government Mint, Noida and Shri C. Kalyan Ram, Works Manager, India Government Mint, Mumbai as Senior Works Manager on adhoc basis of IGM Noida & Mumbai respectively for a further period upto 30.6.2004 or till selection of regular incumbents, whichever is earlier.

2. The adhoc appointment will not confer on the officers any right for regular appointment or seniority.

APARAJITA CHOWDHURY, Under Secy.

No. 2/13/2001-COIN. I.—In continuation of this Deptt.'s Notification of even number dated 6th Feb 2003, the President is pleased to extend the appointment of Shri D. K. Dhillor, Selection Grade Engineer/Melter of India Government Mint, Noida as Assistant Works Manager of IGM Noida on adhoc basis for a further period upto 30.6.2004 or till selection of regular incumbents, whichever is earlier.

2. The adhoc appointment will not confer on the officers any right for regular appointment or seniority.

APARAJITA CHOWDHURY, Under Secy.

New Delhi, the 9th February 2004

No. A. 12011/15/01-Ad. I/2002.—In continuation of this deptt.'s notification of even number dated 14th August, 2003 the President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri Tapan Kumar Marina, Technologist, Government of India Press (PL Unit), Faridabad as Manager (Press) in the Budget Press of this Department for a further period w.e.f. 5.2.2004 to 29.2.2004(AN) in the scale of Rs. 10000-15200/-.

I. C. CAMBOJ, Under Secy.

New Delhi, the 9th February 2004

No. 4/25/2002-Cy.II (BNP).—The President is pleased to appoint Shri Jalam Singh Tanwar, Stores Officer, to the post of Chief Purchase & Stores Officer in the scale of pay of Rs. 10000-15200/- (revised) in the Bank Note Press, Dewas, w.e.f. 28.1.2004 (afternoon), on promotion basis and until further orders.

A. K. KHANNA, Under Secy.

No. 4/1/2003-Cy.II (BNP).—The President is pleased to appoint Shri R. K. Ghoshal, Technical Officer (Printing & Plate-making), the post of Assistant Works Manager (Printing & Plate-making) in the scale of pay of Rs. 8000-13500/- (revised) in the Bank Note Press, Dewas, w.e.f. 28.1.2004 (afternoon), on promotion basis and until further orders.

A. K. KHANNA, Under Secy.

The 10th February 2004

F. No. 3/35/2003-Cy-III.—On attaining the age of superannuation, Shri T. N. Dubey, Control Officer in the India Security Press, Nashik Road, relinquished the charge of the post of Control Officer on 31st January, 04 (afternoon). His name stands deleted from the rolls of India Security Press with effect from that date.

A. K. KHANNA, Under Secy.

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 11th February 2004

CORRIGENDUM

No. 13/3/2002.DRT.—The Notification of even number dated the 27th February, 2004 regarding the repatriation of Sh. A. C. Prakash, Presiding Officer, DRT, Coimbatore to the Department of Legal Affairs may be read as the Notification dated 27th January, 2004.

M. K. MALHOTRA, Under Secy.

The 12th February 2004

No. 18/8/01-DRT.—The President is pleased to extend the period of deputation of Sh. G. Vijayaraghavan, Recovery Officer in the pay scale of Rs. 10,000-15,200/- in the office of Debts Recovery Tribunal-II, Chennai for a further period of one year w.e.f. 15.3.2004 to 14.3.2005 or until further orders, whichever is earlier.

M. K. MALHOTRA, Under Secy.

The 27th February 2004

No. 13(3)/2002. DRT.—On the request of Shri A. C. Prakash, Presiding Officer, DRT, Coimbatore for premature repatriation to his parent office, Deptt. of Legal Affairs on personal grounds, the services of Shri A. C. Prakash stand placed at the disposal of Deptt. of Legal Affairs w.e.f. 29.2.2004(A/N).

M. K. MALHOTRA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND
PROMOTION)

New Delhi, the 16th January 2004

No. A-12023/04/2003-E.I.—The President is pleased to appoint Ms. Subhra Sarker, an Officer of Indian Statistical Service as Assistant Director in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce & Industry, with effect from the forenoon of 1st January, 2004, until further orders.

J. J. KAUR, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 9th February 2004

No. 1/2004 No. 6/2270/2002-HRD-I/489.—The President is pleased to appoint Shri V. K. Gupta, an officer of CSS holding the post of Under Secretary on personal upgradation basis, to Grade-I of the Central Secretariat Service (CSS) purely on ad-hoc basis and post him in the regular vacancy of Deputy Director General of Foreign Trade in Grade-I of CSS (at the level of Under Secretary) in the Directorate General of Foreign Trade, Department of commerce, M/o Commerce and Industry, with effect from 04.01.2002(FN).

The appointment is purely on ad-hoc basis pending preparation of Select List of Grade-I of CSS or until further orders, whichever is earlier. Sri V. K. Gupta, Deputy Director General of Foreign Trade in Grade I of CSS shall have no claim for inclusion of his name in the Select List of Grade-I of CSS on the basis of his ad-hoc appointment. The ad-hoc promotion shall not be used to claim seniority as and when the name of the officer is included in the Select List of Grade-I of CSS.

TARSEM LAL, Jt. Dir. Gen. of Foreign Trade

(OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER)

New Delhi, the 9th February 2004

No. A-32015/1/2004-Ec.Ad.(Admn.I)—The President is pleased to appoint the following Junior Investigator of the Office of the Economic Advisor as Senior Economic Investigator in this office on ad-hoc basis for the period, as indicated against each, or till further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Post of Ad-hoc Promotion	Period From	To
1.	Rama Mehrotra	Senior Economic Investigator	05.02.2004	30.04.2004
2.	Latour Singh	-do-	-do-	-do-

The appointments, ordered above, are made on purely ad-hoc basis and do not confer any right upon the officers concerned to continue in the same post on long-term basis or for regularization in the same grade or to claim seniority etc. on that basis. Government reserves the right to terminate the ad-hoc appointment without assigning any reason or giving notices etc. to the officer concerned.

G.S. NEGI
Addl. Economic Adviser

MINISTRY OF COAL AND MINES

(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 9th February 2004

No. 12012/1/2004-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Ratan Kumar Mukherjee, son of Late Shri A.K. Mukherjee resident of I-1651 (Second Floor), Chittaranjan Park, New Delhi, as Additional PS to the Minister of Coal and Mines (Kumari Mamata Banerjee) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 with effect from 9th January, 2004 (FN). His appointment will be co-terminus with the tenure of the Minister or till the Minister requires his services, whichever is earlier.

PARVATI KAUTIA
Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 4th February 2004

No. 5(3)/2000-Est. (.)—It is hereby notified that the name of Shri Srideba Nanda, Deputy Stores & Purchase Officer in the office of Regional Research Laboratory, Bhubaneswar under CISR and presently appointed as Assistant Private Secretary to Minister of State (IC) for Steel is changed to Shri SRIDEB NANDA with immediate effect.

BABOO RAM
Under Secy.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110 003, the 16th February 2004

No. A-12023/3/2001-Admn.—The President of India is pleased to appoint Shri. Sanjay Kumar, Asstt. Manager (Materials) in Bharat Wagon & Engineering Company Ltd. as Deputy Director on short term contract for a period not exceeding 3 (three) years or until further orders w.e.f. the forenoon of 11th February, 2004 in the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises.

G.S. BOTHYAL
Dir. (Admn.)

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC
DISTRIBUTION**

(DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 4th January 2004

No. A-20011/1/2003-Estt.—The President is pleased to extend the ad hoc appointment of Smt. Rajni Agrawal, Assistant Director in the Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats as Deputy Director in the same organisation in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 w.e.f. 08.01.2004 for a period of six months or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever event takes place earlier.

M.L. MALHOTRA
Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110 016, the 5th February 2004

No. SM/01/030/2001—The President is pleased to appoint the following Officers as Deputy Superintending Surveyor, Group 'A' Service in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500 w.e.f. the date(s) mentioned against their names and until further orders :—

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Shri Amendra Kumar Singh | 28.11.2003 |
| 2. Shri Dhiraj Shah | 22.12.2003 (AN) |

B.K. RAICHANDANI
Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi, the 27th January 2004

No. A-12012/8/2002-P.II (.)—The President is pleased to appoint Shri B.K. Singh IFS (J&K:89), Deputy Secretary as Director in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300/- in the Ministry of Environment & Forest with effect from the forenoon of the 14th January 2004 for the period upto 04.12.2007 (A/N) or until further orders, whichever event takes place earlier as a measure personal to him.

ZAFRUL ISLAM
Under Secy.

The 29th January 2004

No. A-12012/8/97-P.II—With the approval of the competent authority, and concurrence of Department of Personnel and Training (DoPT), the deputation period of Shri S. Mulwani, Assistant as Protocol Officer in the Ministry of Environment and Forests is hereby extended from 21.12.2003 to 20.12.2004 or till his successor joins, whichever is earlier.

ZAFRUL ISLAM
Under Secy.

The 30th January 2004

No. A-32012/1/97-PI (.)—With the approval of the competent authority, Shri Shiv Charan Singh, Technical Officer (For-

estry) Gr. I in the pay scale of Rs. 7500-12000/- is hereby appointed as Assistant Commissioner (Forestry) in the pay scale of Rs. 10,000-15,200/- on regular basis w.e.f. 29.01.2004 (FN).

ZAFRUL ISLAM
Under Secy.

The 4th February 2004

No. A-11013/3/2003-P.II (.)—Shri R.L. Thawait, Lecturer, in Govt. Model Higher Secondary School, Jashpur Nagar, Chhattisgarh, is hereby appointed as Additional Private Secretary to former Minister of State for Environment and Forest in the scale of pay of Rs. 10,000-15,200 w.e.f. 1st February, 2003 (FN.).

The appointment of Shri R.L. Thawait, will be on co-terminus basis with and at the pleasure of the Minister of State for Environment and Forests.

Shri R.L. Thawait will draw pay at the minimum of the scale i.e. Rs. 10,000 w.e.f. 1st February, 2003 (FN.).

ZAFRUL ISLAM
Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-11, the 2004

No. A-35014/8/2002-CHS V—The President is pleased to appoint Dr. Vijay Kumar Anand an officer of the Government of Haryana to the post of Senior Medical Officer in the pay scale of Rs. 10,000-15,200/- in Central Health Service on deputation basis for a period of three years, with effect from the forenoon of the 8.1.2004 under CGHS Delhi. Dr. Vijay Kumar Anand is posted to CGHS, Delhi w.e.f. the same date.

Y.K. TALWAR
Dy. Secy.

The 9th February 2004

No. A.35014/18/2003-CHS.V—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr.(Mrs.) Kalarani Manoharan, Senior Medical Officer of the Government of Tamil Nadu as Senior Medical Officer in the pay scale of Rs. 10000-15200/- in the General Duty Medical officer sub-cadre of CHS on regular basis with effect from the forenoon of the 29.9.2003.

Y.K. TALWAR
Dy. Secy.

The 10th February 2004

No. A.35014/22/2003-CHS.V—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Madhupa Sood, Chief Medical Officer of the Government of Himachal Pradesh as Chief Medical

Officer in the pay scale of Rs. 12000–16500/- in the General Duty Medical Officer sub-cadre of CHS on regular basis with effect from the forenoon of the 24.10.2003.

Y.K. TALWAR, Dy. Secy.

New Delhi, the 3rd February 2004

No. A.38012 /2003-Estt.I.—On attaining the age of superannuation. Shri P.N. Singh, Deputy Secretary (In-situ) in the Department of Health, Ministry of Health and Family Welfare retired from Government Service with effect from the afternoon of 31st January, 2004.

Dr. ANIL KUMAR, Under Secy.

The 11th February 2004

No. A.32013/6/2003-Estt.I.—The President is pleased to appoint Dr. A.K. Tiwary, IIS (92) to the post of Deputy Secretary in the Department of Health, Ministry of Health and Family Welfare for a period of four years with effect from the forenoon of 5th February, 2004 or until further order.

Dr. ANIL KUMAR, Under Secy.

No. A.32013/7/2003-Estt.I.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 7/1/2004-EO(SM.I) dated 30.1.2004, Shri Anurag Goel, IAS (UP : 72) has relinquished charge of the post of Additional Secretary and Financial Adviser in the Ministry of Health and Family Welfare with effect from the afternoon of 3rd February, 2004.

Dr. ANIL KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110011, the 10th February 2004

No. A.12025/54/94-CHS.I.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Birendra Kumar Singh to the Medical Officers' Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200–4000 (pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 21st September, 1994 until further orders. Dr. Birendra Kumar Singh is posted as Medical Officer under Labour Welfare Organisation, Karma with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 11th February 2004

No. A.12025/25/2001-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Shalini Malhotra to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000–275–13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of 13th September 2002. Dr. Shalini Malhotra is posted as

Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 13th February 2004

No. A.12025/209/94-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Jalaja Raj to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200–75–2800–EB-100–4000 (Pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of 21st September 1994 until further orders. Dr. (Smt.) Jalaja Raj is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A.12025/65/98-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Saritha Shamsunder to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000–275–13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 26th June 2000 until further orders. Dr. Saritha Shamsunder is posted as Medical Officer under Safdarjang Hospital, New Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A.12025/33/2001-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Devesh Bhatia to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000–275–13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 04.06.2003 until further orders. Dr. Devesh Bhatia is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 11th February 2004

No. 32011/3/2003-E.V.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Smt. Vasanthy Pal and Smt. Seema Sethi, both regular Senior Technical Assistants (Cooperation) in the Department of Agriculture & Cooperation as Assistant Directors (Cooperation) in the pay scale of Rs. 8000–275–13500 in the same Department for a further period of six months w.e.f. the forenoon of 29.1.2004 or until further orders, whichever is earlier.

2. The promotion of Smt. Vasanthy Pal and Smt. Seema Sethi is purely on ad-hoc basis and will not confer any right to claim seniority in the grade of Assistant Director.

K. D. UPRETI, Under Secy.

MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES

New Delhi, the 13th November 2003

No. A-18011(15)/2003-Estt.—Consequent upon approval of the competent authority for premature repatriation to her parent cadre, Smt. Radha S. Chauhan, IAS(UP : 88) will relinquish the charge of the post of Director in the Ministry of Agro and Rural Industries with effect from the afternoon of the 14th November, 2003 with the stipulation that she will be considered for central deputation only after 25.8.2010 i.e. on expiry of the approved central deputation tenure on 25.8.2007 and the three years cooling off period ending in the year 2010.

The services of Smt. Radha S. Chauhan, IAS (UP : 88) stand placed at the disposal of her parent cadre i.e. Government of Uttar Pradesh with effect from the afternoon of the 14th November, 2003.

H. R. JOSHI, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 29th January 2004

No. A. 32011/3/2003-E.I. (Pt.).—The President is pleased to appoint Shri Puran Singh, CSS as Director in the Ministry of Human Resource Development (Department of Secondary & Higher Education) with effect from the afternoon of 29th January, 2004 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

B. M. SADDI, Under Secy.

(DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT)

New Delhi, the 5th February 2004

No. 3-8/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Shri D. Jhingran, IAS (AM:86), as Director in the Department of Women and Child Development, Ministry of Human Resource Development, in the scale of pay of Rs. 15100-400-18300/- with effect from 3.2.2004 (F/N) for a period of five years, i.e., up to 2.2.2009 or until further orders, whichever is earlier, in pursuance of DoPT's order No. 4/41/2003-EO(MM.I) dated 20.1.2004.

C. A. JACOB, Desk Officer

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 9th February 2004

No. E(GP)2000/1/57.—The President is pleased to approve of Shri R. P. Tripathi, a Group 'B' officer of Accounts Department of Central Railway, being appointed substantively to the Junior scale of the Indian Railway Accounts Service (IRAS)

with effect from 5.3.2002, on that Railway. Shri R. P. Tripathi would, however, be entitled to monetary benefit in Jr. Scale w.e.f. 1.1.2003 only.

2. This is in supersession of notification No. E(GP)2000/1/57 dated 30.4.2003 insofar as Shri R. P. Tripathi is concerned.

V. N. MATHUR, Secy./Railway Board

New Delhi, the 10th February 2004

No. 92/E(GR)1/5/2.—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Service of Mechanical Engineers with effect from the date noted against each :—

S.No.	Name	Date of Joining
	(S/Shri/Ms.)	
1.	Dimpy Garg	26.02.92
2.	Vivek Sahai Mathur	28.03.92
3.	Sandeep Aneja	25.03.92
4.	Niraj Kumar	26.02.92
5.	Sharad Saxena	26.02.92
6.	Swapnil Garg	26.02.92
7.	Permanand Sharma	26.02.92
8.	Manish Jain	26.02.92
9.	Shirish Chandra Srivastava	26.02.92
10.	Madhukar Dayal	26.02.92
11.	Subrata Sarkar	26.02.92
12.	Atul Priyadarshi	03.06.92
13.	Raman Krishnan	25.03.92
14.	Vineet Singh	26.02.92
15.	Mahesh Kumar	26.02.92
16.	Mahesh Kumar	26.02.92
17.	Sanjeev Deshpande	28.02.92
18.	Vivek Sheel	03.06.92
19.	Mohammed Faisal Zuberi	18.08.92
20.	M. M. Pandit	05.04.93
21.	Vikash Arya	10.10.93
22.	Rishi Kesh Prasad	08.04.94
23.	Birendra Sinku	08.04.94
24.	Mukesh Yadav	20.09.92

MANEESH KUMAR, Jt. Dir., Estt. (GR), Rly. Board

The 11th February 2004

No. 90/E(GR)/I/5/I.—The President is pleased to appoint the probationer Shri Ravindra Kerketta in the Indian Railway Service of Mechanical Engineering with effect from 08.04.1994.

MANEESH KUMAR, Jt. Dir., Estt. (GR), Rly. Board

No. 93/E(GR)/I/5/2.—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Service of Mechanical Engineers with effect from the date noted against each:—

S. No.	Name	Date of Joining
(S/Shri/Ms.)		
1.	Rajat Bhargava	14.06.93
2.	Rajgopal Sharma	05.03.93
3.	Sachinder Mohan Sharma	05.03.93
4.	Rohit Kapoor	05.03.93
5.	D. Saibaba	14.06.93
6.	K. Madhav	14.06.93
7.	Deepak Nigam	05.03.93
8.	K. Narayan	05.03.93
9.	Yogesh Mohan	05.03.93
10.	Rajesh Kumar Mishra	05.03.93
11.	Saurabh Prasad	05.03.93
12.	Nitin Kulshrestha	14.06.93
13.	Ajay Singh	05.03.93
14.	Adarsh Khare	05.03.93
15.	Mukund Kumar Sinha	05.03.93
16.	Prashant Soni	05.03.93
17.	G. Anil Srinivas	05.04.93
18.	Rahul Ratan	05.04.93
19.	Sohanjit Singh Kochhar	05.04.93
20.	Atul Singh	05.04.93
21.	Gaurav Kumar	05.04.93
22.	Arvind Kumar Nautiyal	10.10.93
23.	Happy	05.03.93
24.	Galib Ahmed Jillani	05.03.93
25.	Vinay Srivastava	10.10.93
26.	Ramkaran Motiram Pasi	05.03.93
27.	Dharmendra Kumar	10.10.93
28.	Rishi Lal	08.04.94
29.	Vinod Pal	13.04.95

MANEESH KUMAR, Jt. Dir., Estt. (GR),
Railway Board.

No. 94/E(GR)/I/5/2.—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Service of

Mechanical Engineers with effect from the date noted against each:—

S. No.	Name	Date of Joining
1	2	3
(S/Shri/Ms.)		
1.	Amit Khanna	13.03.94
2.	Madhup Kumar Tewari	13.03.94
3.	Ankur Agrawal	13.03.94
4.	Dinkar Sindhu	13.03.94
5.	Vijay Kumar Khara	13.03.94
6.	Vishal Mishra	13.03.94
7.	Manish Agarwal	13.03.94
8.	R. Pradeep	13.03.94
9.	Bindu Mitra	13.03.94
10.	Mayank Tewari	13.03.94
11.	Madhukar Kumar Bhagat	13.03.94
12.	Abhishek Mishra	19.04.94
13.	Manish Thaplyal	16.04.94
14.	Vipul Singh	13.03.94
15.	Devashish Tripathi	13.03.94
16.	Sumit Narula	13.03.94
17.	Rahul Tyagi	13.03.94
18.	Raghuvveer Prasad Meena	13.03.94
19.	Anil Priya Gautam	13.03.94
20.	Amlan Tirkey	08.04.94
21.	Prakash Chaudhary	08.04.94

MANEESH KUMAR, Jt. Dir., Estt. (GR),
Railway Board

No. 99/E(GR) I/32/1.—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Personnel Service with effect from the date noted against each:—

S. No.	Name	Date of Joining
1	2	3
(S/Shri/Ms.)		
1.	Darshnita Ahluwalia	20.09.1999
2.	Sagarika Patnaik	20.09.1999
3.	Manish Chandra	20.09.1999
4.	Garima Srivastava	20.09.1999
5.	Anuradha Singh	20.09.1999
6.	Monica Singh	20.09.1999
7.	Tina Dua	20.09.1999

1	2	3
	(S/Shri/Ms.)	
8.	Harsha Dass	20.09.1999
9.	Mudit Chandra	20.09.1999
10.	Snehal Bhavasing Patil	10.01.2000
11.	Awadhesh Kumar	20.09.1999
12.	A. Narayanan	20.09.1999
13.	Shatrughna Behera	10.01.2000

MANEESH KUMAR, Jt. Dir., Estt.(GR),
Railway Board.

MINISTRY OF POWER

New Delhi-110001, the 12th February 2004

F.No. 25/9/2003-R&R.—In terms of Sub-section (6) of Section 76 of the Electricity Act, 2003, approval of the competent authority is hereby conveyed to the appointment of Shri Bhanu Bhushan as Member of the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) for a period of five years with effect from the forenoon of 4th February, 2004 or till attaining the age of 65 years, whichever is earlier. Shri Bhanu Bhushan will be entitled to pay of Rs. 26,000/- (fixed) per month.

2. The appointment of Shri Bhanu Bhushan as Member of the CERC will be governed by the terms and conditions issued vide this Ministry's letter No. 25/9/2003-R&R, dated 30th January, 2004.

ALOK KUMAR, Director

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 6th February 2004

No. 3/2004, F. No. 2/1/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Shri M.M. Ahuja, Principal Private Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance as Additional Private Secretary to the Hon'ble Chairman, Task Force on Inter-Linking of Rivers (Shri Suresh P. Prabhu) in the pay scale of Rs. 10,000—15,200/- with effect from 14.01.2004 (F.N.). The above appointment will be on co-terminus basis for so long as desired by the Chairman, or until further orders, whichever is earlier.

N.K. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 21st January 2004

No. PF/1290/IIS.—On attaining the age of superannuation, Smt. Lalitha Zackariah, a Senior Administrative Grade Officer of IIS Group 'A' retired from Govt. service on the afternoon of 31st August, 2003.

2. Smt. Lalitha Zackariah relinquished the charge of the post of Director, RR&TD, New Delhi on the same date.

ASHOK KUMAR, Dy. Secy.

The 04th February 2004

No. PF/712/IIS.—On attaining the age of superannuation, Smt. Surinder Kaur, a Selection Grade Officer of IIS Group 'A' retired from Govt. service on the afternoon of 30th November, 2003.

2. Smt. Surinder Kaur relinquished the charge of the post of Director General, DAVP, New Delhi on the same date.

ASHOK KUMAR, Dy. Secy.

New Delhi, the 27th January 2004

No. 11/2004(4/1/2004-Admn.II).—On attaining the age of superannuation, Shri Mohinder Pal, a Grade I Officer of Central Secretariat Service has retired w.e.f. 31.12.2003 (A.N.) while holding the post of Joint Director (Admn.) in Directorate of Advertising and Visual Publicity.

V.K. SEKHRI, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR

(DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT & TRAINING)

New Delhi, the 27th January 2004

No. DGE&T-A-32013/4/99-Admn.II.—The President is pleased to appoint the following officers on the recommendations of UPSC to the grade of Joint Director of Employment Exchanges (Ground 'A' Gazetted) in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Directorate General of Employment & Training against the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the Officer	Designation	Date of Joining
1.	Shri S.K. Seth	Deputy Director of Employment Exchanges	31.12.2003
2.	Dr. Rupal Singh	Senior Scientific Officer Grade-I	31.12.2003
3.	Shri Yogesh Raizada	Deputy Director of Employment Exchanges.	13.01.2004

R.K. AHLUWALIA, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004